

प्रेस नोट दिनांक:- 27.07.2022 जनपद सिद्धार्थनगर

जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिला कारागार सिद्धार्थनगर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 27.07.2022 को श्री संजीव रंजन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर व श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार सिद्धार्थनगर का औचक निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जेल में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान सभी बैरकों तथा बन्दियों का गहन निरीक्षण किया गया। जेल अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा बताया गया कि नियमित रूप से उनके व जेल स्टाफ द्वारा जेल की चेकिंग की जाती है। जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरीक्षण के समय सभी व्यवस्थाएं सन्तोषजनक पायी गयी। जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाए इसके लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही जिला कारागार में आने वाले प्रत्येक नये कैदियों का जेल चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से कारागार का निरीक्षण करते रहे व निरूद्ध बन्दियों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखे एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर कारागार में निरूद्ध बन्दियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी देते रहें।*

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27-07-2022

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा कराए गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग के तहत कराये गये वोटिंग में सिद्धार्थनगर पुलिस को 6545 लोगों द्वारा दिया अपना फीडबैक, फीडबैक का परिणाम।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार द्वारा कराये गए पब्लिक अप्रूवल रेटिंग/सर्वेक्षण के अन्तर्गत श्री अमित कुमार आनन्द के सफल पर्यवेक्षण में जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस की कार्य प्रणाली (ट्विटर, डॉयरेक्ट पोल, पासपोर्ट/चरित्र सत्यापन, आईजीआरएस0 एवं जनपद के समस्त थानों पर पंजीकृत अभियोगों (प्रथम सूचना रिपोर्ट/एनसीआर) के सम्बन्ध में माह जून,2022 की कार्यप्रणाली की वोटिंग में जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त थानों को डायरेक्ट पोल पर 2750, ट्वीटर पोल पर 2901, वादियों द्वारा पंजीकृत कराए गए एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 पर 343, पासपोर्ट और चरित्र प्रमाणपत्र में 110 व आई0जी0आर0एस0 में 441 व्यक्ति कुल 6545 व्यक्तियों द्वारा अपना अपना फीड बैक दिया गया। सिद्धार्थनगर पुलिस के कार्यों का मूल्यांकन कराया गया जिसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करके श्री दिनेश कुमार सरोज, थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर प्रथम स्थान प्राप्त किये, इसी प्रकार क्रमशः दूसरे स्थान पर थाना शिवनगर डिडई, तीसरे स्थान पर थाना कपिलवस्तु, 04. थाना गोलहौरा, 05. थाना मिश्रौलिया, 06. थाना चिल्हिया 07. थाना लोटन 08. थाना ढेबरुआ 09. महिला थाना 10. थाना पथरा बाज़ार 11. थाना बांसी 12. थाना खेसरहा 13. थाना कठेला समयमाता, 14. थाना शोहरतगढ़ 15. थाना सिद्धार्थनगर 16.थाना त्रिलोकपुर 17. थाना उसका बाज़ार 18. थाना मोहाना 19.थाना इटवा 20. थाना डुमरियागंज 21. थाना भवानीगंज स्थान प्राप्त किये।

खबर बनाम सच

खण्डन:-

कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में यह खबर चल रही है कि बाबा धाम जा रहे यात्रियों के साथ जमकर मारपीट, इस प्रकार की घटना/सूचना आदि का सिद्धार्थनगर पुलिस खंडन करती है।

आज दिनांक 27/07/2022 को बाबाधाम जा रहे यात्री को छोड़कर वापस लौट रहे दो व्यक्तियों के साथ, पुरानी रंजिश के कारण अन्य तीसरे व्यक्ति से लड़ाई-झगड़ा हो गया, सूचना पर थाना ढेबरुआ पर अविलम्ब सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार/जेल भेजे गए अभियुक्तों का विवरण

- 1 राजेश चौधरी पुत्र मंगरे कुर्मी , उम्र 19वर्ष, साकिन वार्ड ना.2झंडेनगर वार्ड न.2 कृष्णा नगर ,राष्ट्र नेपाल ,
2. धैर्य प्रताप जयसवाल पुत्र स्व.रामजी उम्र 32वर्ष, साकिन वार्ड न.10 कस्बा बढनी थाना ढेबरुआ ,जनपद सिद्धार्थनगर।
3. नियाजुद्दीन उर्फ अक्कू पुत्र निजामुद्दीन उम्र 29 वर्ष , साकीन वार्ड न.1 कस्बा बढनी ,थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 27/07/2022

थाना ढेबरुआ पर 1 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चंद्र रावत के निर्देश पर तथा क्षेत्राधिकारी शोहरत गढ़ श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष ढेबरुआ श्री हरिओम कुशवाहा की अध्यक्षता में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 118/22 धारा 354क ,323,504 आइपीसी तथा 7/8 पोस्को एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को आज दिनांक 27/07/2022 को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1 अनिल कुमार चौहान पुत्र स्व0 रामनिवास निवासी तालकुंडा टोला केवटली थाना ढेबरुआ सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1 उप निरीक्षक श्री रतीश चंचल
- 2 आरक्षी मनीष तिवारी
- 3 आरक्षी आशीष मिश्रा

प्रेस नोट दिनांक 27/07/2022 थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

थाना ढेबरुआ के कस्बा बढ़नी में आगामी मोहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी संपन्न * *****

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री हरिओम कुशवाहा थाना ढेबरुआ के नेतृत्व में आज दिनांक 27/07/2022 को थाना ढेबरुआ के कस्बा बढ़नी में आगामी मोहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसने सभी धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु तथा क्षेत्र के अन्य सम्मानित संत्रांत व्यक्ति उपस्थित हुए, उपस्थित सभी लोगो को आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न करने हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश से अवगत कराया गया, सभी ने मिलजुलकर आगामी त्योहारों को संपन्न करने की प्रतिबद्धता जताई, सभी ने कुशलता प्रकट की।

प्रेस नोट दिनांक 27.07.2022 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर*

*“शांति व्यवस्था भंग करने वाले

05 व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही”

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद पाण्डेय एवं श्री घनश्याम सिंह थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.07.2022को ग्राम भटपुरवा थाना मिश्रौलिया पर मारपीट के मामले में 05व्यक्ति के विरुद्ध मु0अ0सं0133/22 धारा 147,148,323,504,307 आईपीसी का मुकदमा थाना स्थानीय पर कायम था जिसमें मुलजीमान फरार चल रहे थेआज दिनांक 27 /2/2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

विवाद का कारण

आपसी कहा सुनी की बात लेकर प्रतिवादी गण द्वारा एक राय होकर गाली गुप्ता देना तथा कुल्हाड़ी से मारना जिससे गंभीर चोट आना।

गिरफ्तार अभियुक्त

01.तिलक पुत्र स्व. गौरी शंकर

02.चंद्रभान उर्फ जितेंद्र पुत्र स्व. गौरीशंकर।

03.परशुराम पुत्र लुटई।

04.बजरंगी पुत्र राम बिलासा05.अजय उर्फ जयशु पुत्र लुटई।साकिन चेतिया टोला भट पुरवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01.उपनि० दुर्गा प्रसाद

02.हे०का० अनूप कुमार चौबे

03. का० आलोक यादव

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट:दिनांक 27.07.2022 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान, पी०ए०सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार- प्रसार किया गया ।

आज दिनांक 27.07.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री हरीश चन्द्र के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार यादव मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी०ए० सिस्टम व पम्पलेट के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा वाहन चेकिंग के दौरान खतरनाक तरीके से ड्राइविंग / स्टंट बाइकिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व सड़क पर नियम विरुद्ध तरीके से खड़े वाहनों तथा यातायात नियमों का पालन न करने वाले 44 वाहनों से 48500/-रु० शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके ।

प्रेस नोट दिनांक 27.07.2022

उप-निरीक्षक के पद से निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत हुए जनपद के 16 उप-निरीक्षकगण को स्टार लगाया गया एवं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

आज दिनांक 27-07-2022 को रिजर्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर सभाकक्ष में श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री राण महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ द्वारा उप-निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नत हुए कुल 16 पुलिसकर्मियों को स्टार लगाया गया एवं निरीक्षकगण से क्षेत्र में पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी व सच्चे लगन से कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया ।

नाम एवं नियुक्ति:-

01- श्री कृपाशंकर मौर्य, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।

- 02- श्री सूरजनाथ सिंह, थाना कठेला समयमाता, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- श्री दिनेश यादव, थाना शिवनगर डिडई, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- श्री बांकेलाल, थाना डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- श्री सुभाष यादव, थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- श्री शिवधारी, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 07- श्री ओमप्रकाश तिवारी, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 08- श्री शशि प्रकाश सिंह, थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 09- श्री जयप्रकाश दूबे, थानाध्यक्ष थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 10- श्री राम दरश यादव, थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 11- श्री दिलीप कुमार यादव, थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 12- श्री वीरबहादुर यादव, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 13- श्री सतीश कुमार सिंह, थाना कठेला समयमाता, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 14- श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 15- श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रभारी आईजीआरएस0 सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 16- श्री शिव कुमार यादव, थाना गोल्हौरा, जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक:- 27.07.2022 थाना मिश्रौलिया

=====

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री रमेश चंद्र पांडे क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया श्री घनश्याम सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.22 को मु0अ0सं0-134/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

=====

1.शीला पत्नी वगेई साकिन बहोरवाघाट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

बरामदगी का विवरण: 10 लीटर कच्ची शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01.हे0का0शमसेर अहमद खान

02.का0 विशाल पासवान

थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 27.07.2022 थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर*

“ मु0अ0स0= 126 / 2021 धारा. 363 /376/366क/भादवि व 5j2/6 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पांडे एवं प्रभारी निरीक्षक श्री छत्रपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.07.2022 को मु0अ0स0= 126 / 2021 धारा. 363 /376/366क/भादवि व 5j2/6 पाक्सो एक्ट के समय 10.00 बजे तिवारी पुर से अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्त 01= फूल चंद पुत्र भुईयादीन ग्राम मझिला थाना खागा जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम- 01.उ 0नि0 राजकुमार चौधरी ,2. कांस्टेबल विवेकानंद यादव 3.
का प्रमोद यादव थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 27.07.2022

*01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर,माननीय न्यायालय भेजा गया

श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में श्री गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर* के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के

2-ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्स्टैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।

3-अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।

4-वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https (“s” से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।

5-ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।

6-साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।

7-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।

8-फोन पर कैश रिवाइड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।

9-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।

10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 एवं 8354096891 पर सम्पर्क करें।

□साइबर ठगों से सावधान! □ जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

#BeCyberSafe

#GoodJobCop

#UPPolice

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम:-

1-निरीक्षक श्री पंकज पाण्डेय, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।

2-आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।

3-दिलीप कुमार द्विवेदी साइबर सेल सिद्धार्थनगर।

4-आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।

5- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।

6- आरक्षी राहुल कुमार मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

7- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।